

## तड़वा सरहद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई / दूध वाले को ज्यादा कमाई दिखी तो बनाने लगा नकली घी, मशीनें जब्त, आरोपी फरार



आरोपी के मकान से पुलिस ने बरामद किया नकली घी बनाने का सामान। इनसेट में ड्रम में तैयार नकली घी।

- कृषि कुएं पर बने मकान में चला रहा था नकली घी का कारखाना, आरोपी पहले गांव से दूध लाकर शहर में बेचता था
- बड़ी मात्रा में खाली डिब्बे बरामद, नकली घी की बड़ी खेप बेचने की तैयारी में था आरोपी, कार्रवाई की भनक लगते ही भागा

दैनिक भास्कर

Jun 10, 2020, 06:28 AM IST

**जालोर.** जिला मुख्यालय से 10 किमी की दूरी पर तड़वा सरहद में सोमवार देर रात जालोर पुलिस ने नकली घी बनाने के कारखाना पकड़ा है। हालांकि आरोपी पुलिस की गाड़ी देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पॉम ऑयल, नकली घी बनाने की मशीन, पैकिंग सिस्टम के साथ-साथ करीब 90 लीटर नकली घी भी बरामद किया है।

आरोपी यह नकली घी कहीं बेचने की फिराक में ही था, इससे पहले ही पुलिस को भनक लग गई। कारखाने में पूरी तरह नकली घी को तैयार कर गुल्वर देसी घी ब्रांड के नाम से आधा लीटर, 1 लीटर व 15 लीटर के डिब्बों में पैकिंग के बाद बेचा जा रहा था। सोमवार शाम कार्रवाई करने पुलिस पहुंची तो आरोपी तड़वा निवासी करणसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत उससे पहले ही वहां से फरार हो गया था।

पुलिस ने नकली घी के साथ मशीनें समेत कई उपकरण जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम प्रभारी देवेन्द्रसिंह, कोतवाली थानाधिकारी बाघसिंह व एएसआई धर्मेन्द्र हुड्डा सहित टीम ने इस कार्रवाई का अंजाम दिया।

### डिब्बों पर फर्जी मार्का लगा बेचता नकली घी

तड़वा सरहद में कृषि कुएं पर करणसिंह कारखाना बनाकर नकली घी तैयार कर बेच रहा था। घर को ही उसने पूरी तरह से कारखाना बना दिया, जहां पर घी तैयार करने व उसकी पैकिंग के लिए मशीनें लगी हुई थीं। इसके बाद नकली घी को असली का रूप देने डिब्बों पर मार्का लगाकर बेचता था। मकान की तलाशी लेने पर यहां से पॉम ऑयल से नकली देसी घी बनाने के उपकरण, रैपर, खाली डिब्बे व नकली घी मिला। वहां मौजूद करणसिंह के परिजनों से परमिट व लाइसेंस के बारे में पूछने पर वे कोई जवाब नहीं दे पाए।

### 90 लीटर नकली घी, रिफाइंड पॉम ऑयल से भरे 9 डिब्बे सहित गणेश ट्रेडर्स के नाम की बिल बुकें मिली, सभी जब्त

पुलिस ने यहां से एक गैस की भट्टी, गैस सिलेंडर, एक एयर कंप्रेसर जो नकली घी बनाने के डिब्बे व तीन पैकिंग करने के उपकरण आता था, तीन पैकिंग करने की एक बड़ी मशीन तथा ढक्कन सील करने की छोटी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, प्लास्टिक के पांच ड्रम 200 लीटर के, जिसमें एक ड्रम में 90 लीटर नकली देसी घी, नौ डिब्बे 15 लीटर के रिफाइंड पॉम ऑयल से भरे, 1 कर्टन गुल्वर देसी घी ब्रांड के आधा लीटर के 12 टीन, दो लीटर नकली घी बनाने का एसएस केमिकल, 15 लीटर टीन पैकिंग के कागज के 300 गत्ते जिन पर गुल्वर शुद्ध देसी घी का मार्का लगा, एक बैग जिसमें गणेश ट्रेडर्स के नाम की बिल बुकें जिसमें लोकल एरिया में घी सप्लाई करने के बिल थे। सभी सामग्री पुलिस ने जब्त कर ली।

### पिछले काफी समय से नकली घी के कारोबार से जुड़ा

आरोपी करणसिंह पहले गांव में घूमकर दूध लाकर शहर में बेचता था। पिछले काफी समय से कृषि कुएं पर बने मकान में नकली घी बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा देखते हुए उसने इस कारोबार को काफी बढ़ा भी दिया। आरोपी कुछ समय बाद नकली घी की बड़ी खेप तैयार कर बेचने वाला था। पुलिस ने दो कमरों में भरे खाली 15 लीटर के डिब्बे बरामद किए हैं, जिनको दो ट्रकों में डालकर पुलिस थाने लाई।

### श्री गणेश ट्रेडर्स नाम की फर्म का लिखा था पता



कारखाने में गुल्वर देसी घी ब्रांड के नाम से पैकिंग बाजार में बेचता था। पैकिंग पर घी बनाने का पता श्री गणेश ट्रेडर्स बैरठ रोड, तड़वा, जिला जालोर, राजस्थान 343001 अंकित था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

### कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी भागा

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां पॉम ऑयल से नकली देसी घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने पॉम ऑयल, नकली घी व मशीनें बरामद कर ली है। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया। जल्द पकड़ लेंगे। -हिम्मत अभिलाष टाक, एसपी